



कुचपिडी



कुचीपुड़ी (आंध्रप्रदेश)

उत्पत्ति

17वीं शताब्दी में एक वैष्णव कवि सिद्धेन्द्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचीपुड़ी शैली की कल्पना की। कुचीपुड़ी आंध्रप्रदेश के कृष्णा ज़िले में स्थित एक गाँव का नाम है। शृंगार रस की प्रधानता। विषयवस्तु: पंथ-निरपेक्ष

वाद्ययंत्र

- मृदंगम



- मंजीरा



- वायलिन या वीणा



एकल प्रदर्शन

मंडूक शब्दम: एक मेंढक की कहानी।

तरंगम: नर्तक अपने कर्तब को एक पीतल की तश्तरी के किनारे पर पाँव रखकर तथा अपने सिर पर एक जल पात्र या दीयों के एक सेट को संतुलित रखते हुए प्रस्तुत करता है।

जल चित्र नृत्यम: नर्तक/नर्तकी अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र खींचता/खींचती है।

प्रदर्शन

कावुलम: नृत्य (व्यापक कलाबाजी) तथा नृत्त (शुद्ध नृत्य)

सोल्लाकाथ या पताक्षर: नृत्त भाग

समूह प्रदर्शन

मुख्य विषयवस्तु: भागवत पुराण की कहानियाँ

नर्तकों को भागवतालु कहा

जाता है।

लास्य और तांडव दोनों तत्त्व महत्वपूर्ण हैं।

प्रसिद्ध प्रतिपादक

- राधा रेड्डी
- यामिनी
- इंद्राणी रहमान
- राजा रेड्डी
- कृष्णमूर्ति



Drishti IAS

और पढ़ें: [कूचपुडी नृत्य शैली](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/kuchipudi-1>

